

## हूती विद्रोहियों का यूएई पर हमला

### प्रलिमिस के लिये:

हूती, यमन की अवस्थिति और उसके पड़ोसी देश, लाल सागर, अदन की खाड़ी, ड्रोन, शया, सुन्नी, अरब स्परणि, ऑपरेशन राहत


### मेन्स के लिये:

हूती और संबंधित चतिएँ, हूती संघरण का महत्व, भारत का हति

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात (UAE) की राजधानी अबू धाबी में एक संदर्भित [ड्रोन](#) हमले में कई वसिफोट हुए जिसमें दो भारतीय भी मारे गए हैं।

- यमन के शया हूती विद्रोहियों, जो लगभग सात वर्षों से राजधानी सना सहति देश के उत्तरी हिस्सों को नियंत्रित कर रहे हैं, ने इस हमले की जमिमेदारी ली है।
- भारत ने इस तरह के अस्वीकार्य कृत्यों के खलाफ संयुक्त अरब अमीरात के साथ एकजुटता व्यक्त की है।
- इससे पहले वर्ष 2021 में [सऊदी की राजधानी रयिद पर हूती विद्रोहियों द्वारा बैलसिटिक मसाइल हमला](#) किया गया था।



### प्रमुख बढ़ि

#### ■ हूती :

- हूती आंदोलन की जड़ें "बलीवगि यूथ" (मुंतदा अल-शहाबल-मुमनि) में खोजी जा सकती हैं, जो हुसैन अल-हूती और उसके पति बद्र अल-दीन अल-हूती द्वारा 1990 के दशक की शुरुआत में स्थापित एक ज़ायदी पुनरुत्थानवादी समूह था।
- बद्र अल-दीन उत्तरी यमन में एक प्रभावशाली ज़ायदी मौलवी था। वर्ष 1979 की ईरानी क्रांति और 1980 के दशक में दक्षणी लेबनान में हजिबुल्लाह के उदय से प्रेरित होकर बद्र अल-दीन एवं उसके बेटों ने यमन के ज़ायदियों के बीच वशिल सामाजिक और धार्मिक नेटवर्क का निर्माण कार्य शुरू किया, जो सुन्नी-बहुसंख्यक आबादी वाले देश का लगभग एक-तिहाई हिस्सा बनाते हैं।

- लेकिन जब आंदोलन ने राजनीतिकी रूप ले लिया और अली अब्दुल्ला सालेह (यमन में) के "भ्रष्ट" शासन पर हमला करना शुरू कर दिया तो आतंकवाद के खलिफ अमेरिका का युद्ध के लिये उनका समर्थन सालेह के लिये घातक बन गया।
- उसने खुद को अंसार अल्लाह कहा और सरकार के खलिफ उत्तर में आदिवासियों को लामबंद किया।
- वर्ष 2004 में सालेह की सरकार ने हुसैन अल हूती के खलिफ गरिफतारी का वारंट जारी किया और इस गरिफतारी के वरिए में विद्रोह की शुरुआत हुई।
- सितंबर 2004 में सरकारी सैनिकों ने विद्रोहियों पर हमला कर हुसैन को मार डाला। तब से सरकार ने प्रतरिए को समाप्त करने के लिये जायदी के गढ़ सादा में कई सैन्य अभियान शुरू किये जिसे स्थानीय रूप में हूती आंदोलन कहा गया।
- लेकिन इसने हूती विद्रोहियों को मजबूत किया जिन्होंने वर्ष 2010 तक यानी जब यह युद्ध विराम की स्थितिक पहुँच गया तो सरकारी सैनिकों की मदद से सादा पर कब्ज़ा कर लिया था।

## ज्ञायदी

- ज्ञायदी शियाओं की सबसे पुरानी शाखा है। ज्ञायदियों का नाम ज़ैद बनि अली, इमाम अली के परपोते, पैगंबर मोहम्मद के चचेरे भाई और दामाद के नाम पर रखा गया है, जो शिया, सुन्नी और ज्ञायदी का सम्मान करते हैं।
- ज्ञायद बनि अली ने आठवीं शताब्दी में उम्मायद खलिफा के खलिफ विद्रोह का नेतृत्व किया था। जिसमें उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन उसकी शहादत के कारण ज्ञायदी संप्रदाय का उदय हुआ। हाँलाकि धरमसातर और व्यवहार के संदर्भ में ज्ञायदी को इस्लाम की शिया शाखा का हसिसा माना जाता है। वे ईरान, इराक और लेबनान के 'ट्रेल्वर' शियाओं से भिन्न हैं।
- सदियों से यमन के भीतर ज्ञायदी एक शक्तिशाली संप्रदाय था।
- वर्ष 1918 में ओटोमन साम्राज्य के पतन के बाद ज्ञायदी देश में एक राजशाही (मुतावक्कलिति साम्राज्य) स्थापित करना चाहते थे लेकिन उनका प्रभुत्व वर्ष 1962 में उस समय समाप्त हो गया जब मसिर समर्थति गणतंत्रों ने राजशाही को उखाड़ फेंका।
- हूती के उदय का कारण:
  - वर्ष 2011 में जब ट्यूनीशियाई और मसिर के तानाशाहों को गरिने वाले अरब स्पृहिय विरोध के हसिसे के रूप में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए, तो हूती (Houthis), उस समय अपनी सैन्य जीत से आश्वस्त थे और सदाह में उन्हें जो समर्थन मिला, उसने आंदोलन का समर्थन किया।
  - राष्ट्रपति सालेह, (एक ज्ञायदी) जो 33 वर्षों तक सत्ता में थे, ने नवंबर 2011 में इस्तीफा दे दिया तथा अपने डपिटी, अब्दराबुह मंसूर हादी, जो एक सऊदी समर्थति सुन्नी था को बागड़र सौंप दी।
  - सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के संरक्षण में यमन ने आंतरकि मतभेदों को हल करने के लिये एक राष्ट्रीय वारता शुरू की।
  - हूती इस संवाद का हसिसा थे लेकिन वे हादी की संक्रमणकालीन सरकार (Transitional Government) के साथ ही इस संवाद से बाहर हो गए तथा यह दावा करते हुए कि प्रस्तावित संघीय समाधान, जो ज्ञायदी-प्रभुत्व वाले उत्तर को दो भूमिकाएँ परांतों में विभाजित करने की मांग करता था, का उद्देश्य आंदोलन को कमजोर करना था।
  - वे शीघ्र ही विद्रोह में पुनः शामिल हो गए। सालेह जिन्हें अंतरमि सरकार और उसके समर्थकों द्वारा दरकनार कर दिया गया था। अपने पूरव प्रतिवंदियों के साथ हाथ मिलाया और एक संयुक्त सैन्य अभियान शुरू किया।
  - जनवरी 2015 तक हूती-सालेह गठबंधन (Houthi-Saleh alliance) ने सना और उत्तरी यमन के अधिकांश हसिसे पर कब्ज़ा कर लिया था, जिसमें महत्वपूर्ण लाल सागर तट भी शामिल था। (बाद में हूती, सालेह के खलिफ हो गए और दसिंबर 2017 में उसे मार डाला)।
- यमन पर सऊदी अरब के हमले का कारण:
  - यमन में हूती विद्रोहियों के तेज़ी से उदय ने सऊदी अरब में खतरे की घंटी बजा दी, जो कि उन्हें ईरानी प्रॉक्सी के रूप में देखता है।
  - सऊदी अरब ने मार्च 2015 में हूती विद्रोहियों के खलिफ त्वरति जीत की उम्मीद में एक सैन्य अभियान शुरू किया था, लेकिन सऊदी अरब के हवाई हमले के बावजूद हूती विद्रोही पीछे नहीं हटे।
  - ज़मीनी सतर पर कोई प्रभावी सहयोगी नहीं होने और कोई विशिष्ट योजना न होने के कारण, सऊदी के नेतृत्व वाला अभियान बनि कसी ठोस परिणाम के समाप्त हो गया। पछिले छह वर्षों में हूती विद्रोहियों ने सऊदी हवाई हमलों के जवाब में उत्तरी यमन के सऊदी शहरों पर कई हमले किये हैं।
  - वर्ष 2019 में हूती विद्रोहियों ने दो सऊदी तेल प्रतिष्ठानों पर हमले का दावा किया था, जो कि देश के तेल उत्पादन के आधे हसिसे हेतु उत्तरदायी है (हूती विद्रोहियों के दावे को विशेषज्ञों और सरकारों द्वारा खंडित कर दिया गया था, जिन्होंने कहा कि विद्रोहियों के लिये यह हमला करना संभव नहीं था। अमेरिका ने इसके लिये ईरान को दोषी ठहराया था)।
  - हूती विद्रोहियों ने उत्तर में एक सरकार का गठन किया। युद्ध में सऊदी अरब और हूती दोनों के खलिफ गंभीर आरोप हैं।
  - जबकि सऊदी बम विस्फोटों में बड़ी संख्या में नागरिक मारे गए, हूती विद्रोहियों पर अधिकार समूहों और सरकारों द्वारा, सहायता को रोकने, घनी आबादी वाले क्षेत्रों में बलों को तैनात करने तथा नागरिकों व शांतपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खलिफ अत्यधिक बल का उपयोगप्रयोग करने का आरोप लगाया गया।
- हूती विद्रोहियों के संयुक्त अरब अमीरात पर हमला करने का कारण:
  - यह पहली बार नहीं है जब हूती विद्रोहियों ने संयुक्त अरब अमीरात पर हमला किया हो। वर्ष 2018 में जब संयुक्त अरब अमीरात समर्थति बल यमन में आगे बढ़ रहे थे, हूती विद्रोहियों ने अमीरात के खलिफ हमलों का दावा किया।
  - तब संयुक्त अरब अमीरात ने यमन से अपने सैनिकों को वापस ले लिया और अदन स्थिति विद्रोहियों के एक समूह, दक्षणी दरांजीशनल परिषद को सामरकि समर्थन की पेशकश की, जो संयुक्त अरब अमीरात के सऊदी समर्थति सरकारी बलों से भी लड़ रहा था।
  - इस अवधि के दौरान हूती विद्रोही पूरी तरह से सऊदी अरब और यमन के अंदर सऊदी समर्थति बलों पर केंद्रित रहे।
  - लेकिन हाल के महीनों में, जायंट्स बरगिड्स, एक मलिशिया समूह, जो बड़े पैमाने पर दक्षणी यमनियों (यूर्इ द्वारा समर्थति) से बना है और संयुक्त बलों (मारे गए पूरव राष्ट्रपति सालेह के भतीजे के नेतृत्व में मलिशिया) ने हूती विद्रोहियों के खलिफ बंदूक उठा ली थी।
  - अब हमलों के साथ ऐसा प्रतीत होता है कि हूती विद्रोहियों ने अमीरात को एक स्पष्ट संदेश भेजा है कि वह यमन से दूर रहे या अधिक हमलों का सामना करें।
- चतिर्थः

- यमन रणनीतिकि रूप से महत्त्वपूरण है क्योंकि यह लाल सागर को अद्वा की खाड़ी से जोड़ने वाले जलडमरुमध्य पर स्थिति है, जसिके माध्यम से दुनिया के अधिकाश तेल शपिस्ट गुज़रते हैं।
- यह अल-कायदा या आईएस से जुड़े-देश के हमलों के खतरे के कारण भी पश्चिमि को चतिति करता है -जो अस्थरिता को उत्पन्न करते हैं।
- अमेरिका द्वारा विद्रोहियों को आतंकवादियों के रूप में सूचीबद्ध करने और छह साल से संघर्ष को कम करने के प्रयासों के बाद भी हूती विद्रोहियों ने राज्य पर सीमा पार हमले तेज कर दिये हैं।
- संघर्ष को शाया शास्ति ईरान और सुन्नी शास्ति सऊदी अरब के बीच क्षेत्रीय सत्ता संघर्ष के हस्से के रूप में भी देखा जाता है।

■ भारत का हति:

- भारत के लिये यह एक ऐसी चुनौती है जसिं तेल सुरक्षा और इस क्षेत्र में रहने वाले 8 मलियन प्रवासियों को ध्यान में रखकर नज़र अंदाज नहीं किया जा सकता है जनिसे सालाना 80 बलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का प्रेरण होता है।

■ भारतीय पहल:

- **ऑपरेशन राहत:**
  - भारत ने अप्रैल 2015 में यमन से 4000 से अधिक भारतीय नागरिकों को नकालने के लिये बढ़े पैमाने पर हवाई और समुद्री अभियान शुरू किया।
- **मानवीय सहायता:**
  - भारत ने अलीत में यमन को भोजन और चकितिसा सहायता प्रदान की है और पछिले कुछ वर्षों में हजारों यमन नागरिकों ने भारत में चकितिसा उपचार का लाभ उठाया है।
  - भारत ने वभिन्न भारतीय संस्थानों में बड़ी संख्या में यमन नागरिकों के लिये शक्षा की सुवधा जारी रखता है।

## स्रोत- द हिंदी

PDF Reference URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/houthis-attack-uae>

